

## Go To The People के बारे में

“Go To The People” (GTP) का उद्देश्य ऐसे युवाओं के लिए एक मंच प्रदान करना चाहता है जो खुद के, समाज के और अपने आसपास की समस्याओं से जुड़े ‘क्या’, ‘क्यों’ और ‘कैसे’ इन सवालों के बारे में संवेदनशील और बेचैन हैं। GTP उन युवाओं के बारे में है जो दिल की करने के लिए दिमाग का इस्तेमाल करने वाले अपने जैसे अन्य बेचैन लोगों से मिलना चाहते हैं। GTP उस मौके के बारे में है जहाँ आप इन राहों पर चलने वाले तजुर्बेकार साथियों से मिलकर उनको सुन सकेंगे और उनसे सीख सकेंगे। GTP का मतलब है किसी भी समस्या को समझने के कौशल विकसित करना और उसका व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से इससे सामना करने के अलग-अलग तरीकों के बारे में समझना। GTP का प्रयास देशभर के विभिन्न क्षेत्रों के सामाजिक रूप से संवेदनशील व्यक्तियों के ऐसे परिवार का निर्माण करना है, जो की दोस्ती के गहरे बंधन के साथ बंधा हुआ है और एक दूसरे के लिए एक सपोर्ट सिस्टम की तरह कार्य करें। अंत में GTP खुद को खोजने का और एक सार्थक जीवन जीने का प्रयास है।

इसलिए जीटीपी का ध्येय उत्साही युवाओं को यह एहसास दिलाना है की वे अपने जीवन के लक्ष की खोज करते हुए समाज की भलाई में भी योगदान दे सकते हैं। इसलिए उनको संवेदनशीलता, सामाजिक जागरूकता, मूल्य-आधारित जीवन और समस्याओं की समझ के बारे में प्रोत्साहित करने का प्रयास नियोजित शिविरों की माध्यम से किया जाएगा।

कृपया इस आवेदन पत्र को नीचे भरें जिससे हमें आपको बेहतर जानने में मदद मिलेगी। यह भी याद रखें कि GTP पर आपका सीखना इस आवेदन पत्र के साथ ही शुरू होता है। तो तैयार हो जाइए।

## भाग 1 – आवेदक की जानकारी

1. नाम (हिंदी में)	
2. NAME (अंग्रेजी कपिटल अक्षरों में)	
3. जन्मतिथि (dd-mm-yyyy)	
4. लिंग (पुरुष/स्त्री/अन्य)	
5. सर्वोच्च शिक्षा (अगर वर्तमान में अध्ययनरत है तो कोर्स के वर्ष/सेमिस्टर को लिखिए)	
6. संस्थान/कॉलेज	
7. व्यवसाय (अगर वर्तमान में आय अर्जित कर रहे हैं)	
8. वर्तमान पता	
9. स्थायी पता (अगर वर्तमान पते हे भिन्न है तो)	
10. निवास शहरी/ उप-नगर/ ग्रामीण/ आदिवासी क्षेत्र	
11. मोबाइल क्रमांक (प्राथमिक एवं अन्य यदि हो तो)	
12. इमेल आईडी	
13. श्रेणी अनुसूचित जाती SC /अनुसूचित जनजाति ST/विमुक्त जाती VJ/घुमंतू जनजाति NT/अन्य पिछड़ा वर्ग OBC/सामान्य वर्ग OPEN	
14. Religion/ Atheist	

कृपया जात हो कि हम सभी जातियों, धर्मों और विचारधाराओं के लोगों का सम्मान करते हैं। भिन्न पृष्ठभूमि के सक्रिय युवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने हेतु आखरी दो प्रश्नों का प्रयोजन किया गया है।

**हार्ड कॉपी में भरते समय कृपया इन प्रश्नों के जवाबों के लिए अलग शीट/पेपर का प्रयोग करें।**

**उत्तर देते समय भाग संख्या और प्रश्न संख्या का अवश्य उल्लेख करें**

**भाग 2 – ये सवाल आपको कॉलेज के कोई भी परीक्षा में नहीं पूछे जायेंगे !**

1. आपकी अभिरुचि - Hobbies
2. आपकी उपलब्धियाँ (यह जरूरी नहीं की उपलब्धियाँ अध्ययन से जुड़ी हो)
3. 2-3 फिल्मों / सीरिज/धारावाहिक जो आपको पसंद आए? इनमें से किसी एक के बारे में 50 - 100 शब्दों में बताइए की आपको यह क्यों पसंद आया।
4. 2-3 पुस्तकों का नाम जो आपको पसंद आये? इनमें से किसी एक के बारे में 50 -100 शब्दों में बताइए की आपको यह क्यों पसंद आया।
5. आपके सामर्थ्य और कमजोरियां क्या हैं?

**भाग 3: हम आपकी विचार प्रक्रिया का सम्मान करते हैं, इसके बारे में अधिक जानना चाहेंगे।**

1. आप GTP शिविर में क्यों शामिल होना चाहते हैं?
2. आप समाज के लिए ऐसा क्या करना चाहेंगे जो अनोखा या असाधारण हो?
3. अपने आसपास किसी भी तीन महत्वपूर्ण समस्याओं को लिखें। इन समस्याओं के बारे में आपके क्या विचार हैं (कोई भी 1)?
4. क्या आपको लोगों के लिए (अकेले या समूह में) काम करने का कोई अनुभव है? यदि हाँ, तो उसका वर्णन करें। लोगों के लिए काम करने में आपके सामने कौनसी चुनौतियाँ / सीमाएँ हैं?
5. आपको क्यों लगता है कि आपको जीटीपी शिविरों के लिए चुना जाए?

**भाग 4: जीटीपी शिविर के बारे में**

1. चूंकि जीटीपी शिविर का उद्देश्य आपको अपने और समाज के बारे में जागरूकता विकसित करने में मदद करना है, इस शिविर से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं?
2. इस शिविर के दौरान समाज में व्याप्त विभिन्न समस्याओं पर काम करने वाले विशेषज्ञ आपसे चर्चा करेंगे और अपने अनुभव साझा करेंगे। क्या ऐसी कोई विशेष समस्या है जिसे आप चर्चा में शामिल करना चाहेंगे?
3. एक वर्ष में जीटीपी के दो शिविर होंगे (लगभग छः माह के अंतराल से) और प्रत्येक शिविर छः दिनों के लिए होगा। शिविर में शामिल होने हेतु कौन कौनसे माह आपके लिए **उपयुक्त नहीं है?**
4. शिविर पंजीकरण शुल्क लगभग रु. 1000/- है। क्या आपकी वित्तीय या अन्य कोई समस्या है जो आपको शिविर में पंजीकरण करने से रोक सकती है?